




रोल नं.

Roll No.



SET-1

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

56/2/1

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित (I) पृष्ठ 27 हैं।
- (II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में (II) 33 प्रश्न हैं।
- * (III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए (III) प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- * (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से (IV) पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक * अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का (V) समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

NOTE

Please check that this question paper contains 27 printed pages.

Please check that this question paper contains 33 questions.

(III) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70



सामान्य निर्देशः

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है - खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क - प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख - प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग - प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ - प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ - प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि ट्रृष्णिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

$$16 \times 1 = 16$$

1. जब MnO_2 को वायु की उपस्थिति में KOH के साथ संगलित किया जाता है, तो यह देता है :

- | | |
|---------------|----------------|
| (A) $KMnO_4$ | (B) K_2MnO_4 |
| (C) Mn_2O_7 | (D) Mn_2O_3 |

2. लिगन्ड $EDTA^{4-}$ उदाहरण है :

- (A) एकदंतुर लिगन्ड का
- (B) द्विदंतुर लिगन्ड का
- (C) त्रिदंतुर लिगन्ड का
- (D) बहुदंतुर लिगन्ड का



General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into five sections - Section A, B, C, D and E.
- (iii) Section A - questions number 1 to 16 are multiple choice type questions. Each question carries 1 mark.
- (iv) Section B - questions number 17 to 21 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.
- (v) Section C - questions number 22 to 28 are short answer type questions. Each question carries 3 marks.
- (vi) Section D - questions number 29 and 30 are case-based questions. Each question carries 4 marks.
- (vii) Section E - questions number 31 to 33 are long answer type questions. Each question carries 5 marks.
- (viii) There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section A.
- (ix) Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.
- (x) Use of calculators is **not allowed**.

SECTION A

Questions no. 1 to 16 are Multiple Choice type Questions, carrying 1 mark each.

$$16 \times 1 = 16$$




1. When MnO_2 is fused with KOH in air, it gives :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (A) KMnO_4 | (B) K_2MnO_4 |
| (C) Mn_2O_7 | (D) Mn_2O_3 |





2. Ligand EDTA^{4-} is an example of a :

- (A) Monodentate ligand
- (B) Didentate ligand
- (C) Tridentate ligand
- (D) Polydentate ligand





3. निम्नलिखित लिंगन्ड में से कौन-सा कीलेट संकुल निर्मित करता है ?







4. निम्नलिखित में से किसमें sp^2 संकरित कार्बन X से आबंधित है ?



5. निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक अम्लीय है ?



6. ऐनिसोल, HI के साथ अभिक्रिया करके देता है :





3. Which of the following ligand forms chelate complex?
- (A) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
(B) Cl^-
(C) NO_2^-
(D) NH_3
4. Which of the following contains sp^2 hybridised carbon bonded to X?
- (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{X}$
(B)
(C) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{X}$
(D) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{X}$
5. Which of the following is most acidic?
- (A)
(B)
(C)
(D)
6. Anisole reacts with HI to give:
- (A) + $\text{CH}_3 - \text{I}$
(B) + $\text{CH}_3 - \text{OH}$
(C) + $\text{CH}_3 - \text{I}$
(D) + $\text{CH}_3 - \text{OH}$



7. एथेनॉल 413 K पर सांद्र H_2SO_4 के साथ गर्म करने पर देता है :
- (A) $C_2H_5OSO_3H$
(B) $C_2H_5 - O - CH_3$
(C) $C_2H_5 - O - C_2H_5$
(D) $CH_2 = CH_2$
8. दो द्रवों के स्थिरक्वाथी विलयन का क्वथनांक उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से निम्नतर होता है जब यह :
- (A) संतृप्त है
(B) राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है
(C) राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है
(D) राउल्ट नियम से कोई विचलन नहीं दर्शाता है
9. किसी अवाष्पशील विलेय के जलीय विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 0.0225 है। अवाष्पशील विलेय का मोल-अंश है :
- (A) 0.80
(B) 0.725
(C) 0.15
(D) 0.0225
10. NaCl के जलीय विलयन के विद्युत-अपघटन के दौरान :
- (A) कैथोड पर $H_2(g)$ मुक्त होती है
(B) कैथोड पर Na निर्मित होता है
(C) एनोड पर $O_2(g)$ मुक्त होती है
(D) कैथोड पर $Cl_2(g)$ मुक्त होती है

7. Ethanol on heating with conc. H_2SO_4 at 413 K gives :
- (A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OSO}_3\text{H}$
 - (B) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{CH}_3$
 - (C) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$
 - (D) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
8. An azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it :
- (A) is saturated
 - (B) shows positive deviation from Raoult's law
 - (C) shows negative deviation from Raoult's law
 - (D) shows no deviation from Raoult's law
9. The relative lowering of vapour pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0225. The mole fraction of the non-volatile solute is :
- (A) 0.80
 - (B) 0.725
 - (C) 0.15
 - (D) 0.0225
10. During electrolysis of aqueous solution of NaCl :
- (A) $\text{H}_2(g)$ is liberated at cathode
 - (B) Na is formed at cathode
 - (C) $\text{O}_2(g)$ is liberated at anode
 - (D) $\text{Cl}_2(g)$ is liberated at cathode

प्र०

11. रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक जोड़ने से अभिक्रिया की निम्नलिखित मात्राओं में से किसको परिवर्तित कर देता है ?

- (A) एन्थैल्पी
- (B) सक्रियण ऊर्जा
- (C) एन्ट्रॉपी
- (D) आंतरिक ऊर्जा

12. किसी प्राथमिक अभिक्रिया $P \rightarrow Q$ के लिए 'P' के लोप होने की दर, 'P' की सांद्रता दुगुनी करने पर, 8 के गुणक से बढ़ जाती है । 'P' के प्रति अभिक्रिया की कोटि है :

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 1

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं— जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए ।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है ।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है ।

11. The addit
following

- (A) En
- (B) A
- (C) E
- (D) I

12. For th
increa
order

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

For Quest
as Asserti
answer to
below.

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)



11. The addition of catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities of the reaction ?
- (A) Enthalpy
 - (B) Activation energy
 - (C) Entropy
 - (D) Internal energy
12. For the elementary reaction $P \rightarrow Q$, the rate of disappearance of 'P' increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of 'P'. The order of the reaction with respect to 'P' is :
- (A) 3
 - (B) 4
 - (C) 2
 - (D) 1

For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.



13. अभिकथन (A) : ऐलिफैटिक प्राथमिक ऐमीनों का विरचन गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।

कारण (R) : ऐल्किल हैलाइड थैलिमाइड से प्राप्त त्रहणायन के साथ नाभिकराणी प्रतिस्थापन करता है।

14. अभिकथन (A) : DNA में यूरेसिल क्षारक उपस्थित होता है।

कारण (R) : DNA स्वप्रतिकरण करता है।

15. अभिकथन (A) : ऐलिफैटिक ऐमीनों के डाइएज़ोनियम लवणों की तुलना में ऐरोमैटिक ऐमीनों के डाइएज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं।

कारण (R) : ऐलिफैटिक ऐमीनों के डाइएज़ोनियम लवण अनुनाद दर्शाते हैं।

16. अभिकथन (A) : *p*-टॉलूडीन की अपेक्षा *p*-नाइट्रोऐनिलीन दुर्बल क्षारक है।

कारण (R) : *p*-नाइट्रोऐनिलीन में उपस्थित NO_2 समूह का इलेक्ट्रॉन अपनयन प्रभाव इसे दुर्बल क्षारक बना देता है।

खण्ड ख

17. ग्लूकोस (मोलर द्रव्यमान = 180 g mol^{-1}) का 6% विलयन किसी अज्ञात कार्बनिक पदार्थ के 2.5% विलयन के साथ समपरासारी है। अज्ञात कार्बनिक पदार्थ का अणु भार परिकलित कीजिए।

2

18. किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक $1.25 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है। इस अभिकर्मक के 5 g को 2.5 g में घटने में कितना समय लगेगा?

2

$$[\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.4771, \log 4 = 0.6021]$$



13. Assertion (A) : Aliphatic primary amines can be prepared by Gabriel phthalimide synthesis.

Reason (R) : Alkyl halides undergo nucleophilic substitution with anion formed by phthalimide.

14. Assertion (A) : Uracil base is present in DNA.

Reason (R) : DNA undergoes self-replication.

15. Assertion (A) : Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines.

Reason (R) : Diazonium salts of aliphatic amines show resonance.

16. Assertion (A) : *p*-nitroaniline is a weaker base than *p*-toluidine.

Reason (R) : The electron withdrawing effect of $-NO_2$ group in *p*-nitroaniline makes it a weaker base.

SECTION B

17. A 6% solution of glucose (molar mass = 180 g mol^{-1}) is isotonic with 2.5% solution of an unknown organic substance. Calculate the molecular weight of the unknown organic substance. 2

18. A first order reaction has a rate constant $1.25 \times 10^{-3}\text{ s}^{-1}$. How long will 5 g of this reactant take to reduce to 2.5 g ? 2

$$[\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.4771, \log 4 = 0.6021]$$

प्र०

19. (क) लैन्थेनॉयड आकुंचन क्या है ? लैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच ऐटिनॉयड आकुंचन अधिक होता है। क्यों ? 1+1=2


अथवा

- (ख) संक्रमण धातुएँ कणन एन्थैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाती हैं ? 3d-श्रेणी में किस तत्व की कणन एन्थैल्पी सबसे कम है ? 1+1=2

20. (क) यौगिकों के निम्नलिखित युगल में से कौन-सा यौगिक अधिक तीव्रता से S_N2 अभिक्रिया करेगा और क्यों ?



- (ख) निम्नलिखित में मुख्य उत्पाद लिखिए : 1+1=2





21. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : 2\times 1=2

- (क) प्रोटीन का विकृतीकरण
(ख) अपवृत शर्करा

खण्ड ग

22. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B और C की संरचनाएँ लिखिए : 2\times 1 \frac{1}{2}=3





19. (a) What is lanthanoid contraction ? Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction. Why ? $1+1=2$


OR

- (b) Why do transition metals have high enthalpy of atomization ? Which element of 3d-series has lowest enthalpy of atomization ? $1+1=2$

20. (a) In the following pair of compounds, which compound undergoes S_N2 reaction faster and why ?



- (b) Write the major product in the following : $1+1=2$




21. Define the following terms : $2 \times 1 = 2$

- (a) Denaturation of protein
(b) Invert sugar

SECTION C

22. Write the structures of A, B and C in the following reactions : $2 \times 1 \frac{1}{2} = 3$





23. निम्नलिखित से संबद्ध अभिक्रिया लिखिए :

- (क) वोल्फ-किशनर अपचयन
- (ख) विकार्बोक्सिलन अभिक्रिया
- (ग) कैनिज़ारो अभिक्रिया

$3 \times 1 = 3$

24. निम्नलिखित के विरचन के लिए अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए : (कोई तीन) $3 \times 1 = 3$

- (क) क्लोरोबेन्जीन से फ़ीनॉल
- (ख) फ़ीनॉल से सैलिसैलिडहाइड
- (ग) ऐनिसोल से 2-मेर्थॉक्सीऐसीटोफ़ीनोन
- (घ) फ़ीनॉल से पिक्रिक अम्ल

25. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए : $3 \times 1 = 3$

- (क) क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है फिर भी यह ऐरोमैटिक इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो/पैरा निर्देशक है।
- (ख) रेसिमिक मिश्रण ध्रुवण अधूर्णक होता है।
- (ग) n-प्रोपिल क्लोराइड की अपेक्षा ऐलिल क्लोराइड अधिक शीघ्रता से जल-अपघटित हो जाता है।

26. 283 K पर किसी विलायक का वाष्प दाब 100 mm Hg है। उस तनु विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए जिसमें 283 K पर किसी प्रबल विद्युत-अपघट्य AB का 1 मोल विलायक के 50 मोल में घुला है (यह मान लीजिए कि विलेय AB पूर्णतः वियोजित हो जाता है)। 3



23. Write the reaction involved in the following : $3 \times 1 = 3$

- (a) Wolff-Kishner reduction
- (b) Decarboxylation reaction
- (c) Cannizzaro reaction

24. Give the equations of reactions for the preparation of : (any *three*) $3 \times 1 = 3$

- (a) Phenol from chlorobenzene
- (b) Salicylaldehyde from phenol
- (c) 2-Methoxyacetophenone from anisole
- (d) Picric acid from phenol

25. Give reasons for the following : $3 \times 1 = 3$

- (a) Chlorine is ortho/para directing in electrophilic aromatic substitution reactions, though chlorine is an electron withdrawing group.
- (b) Racemic mixture is optically inactive.
- (c) Allyl chloride is hydrolysed more readily than n-propyl chloride.

26. The vapour pressure of a solvent at 283 K is 100 mm Hg. Calculate the vapour pressure of a dilute solution containing 1 mole of a strong electrolyte AB in 50 moles of the solvent at 283 K (assuming complete dissociation of solute AB). 3

27. निम्नलिखित सेल का वि.वा. बल (emf) परिकलित कीजिए :



दिया गया है : $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = -0.76 \text{ V}$, $E_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^{\circ} = -0.14 \text{ V}$

$$[\log 10 = 1]$$

28. ताप में 17°C से 27°C तक वृद्धि करने पर किसी गैसीय अभिक्रिया का वेग तीन गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का परिकलन कीजिए।
[दिया गया है : $2.303 R = 19.15 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 3 = 0.48$]

खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. कार्बोहाइड्रेट पौधों और प्राणियों दोनों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों में स्टार्च की तरह और प्राणियों में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहण अणुओं की भाँति प्रयुक्त होते हैं। रासायनिक रूप से ये पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को जल-अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मोनोसैकैराइड, ओलिगोसैकैराइड और पॉलिसैकैराइड में वर्गीकृत किया गया है। सभी मोनोसैकैराइड अपचायी शर्करा होती हैं, अर्थात् ये टॉलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ग्लूकोस जैसा मोनोसैकैराइड ऐल्डोहैक्सोज होता है और इसका आण्विक सूत्र $C_6H_{12}O_6$ पाया गया। विभिन्न अभिकर्मकों जैसे HI, $H_2N - OH$, ब्रोमीन जल, $(CH_3CO)_2O$ इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके इसकी संरचना में एक ऐल्डिहाइड समूह, एक प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक समूह ($-CH_2OH$) और चार द्वितीयक ऐल्कोहॉलिक समूह ($>CHOH$) पाए गए। ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोस ऐल्डिहाइड समूह की कुछ अभिक्रियाएँ जैसे शिफ परीक्षण, $NaHSO_3$ योगज नहीं देता है। यह ग्लूकोस के दो चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों के अस्तित्व को समझाता है जिनमें भिन्नता केवल C – 1 पर उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है।



27. Calculate emf of the following cell :

3



Given : $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = -0.76 \text{ V}$, $E_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^{\circ} = -0.14 \text{ V}$

[$\log 10 = 1$]

28. The rate of a gaseous reaction triples when temperature is increased from 17°C to 27°C . Calculate the energy of activation for this reaction.

3

[Given : $2.303 R = 19.15 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\log 3 = 0.48$]

SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

29. Carbohydrates are essential for life in both plants and animals. Carbohydrates are used as storage molecules as starch in plants and glycogen in animals. Chemically they are polyhydroxy aldehydes or ketones. On the basis of their behaviour on hydrolysis, carbohydrates are classified as monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. All monosaccharides are reducing sugars, i.e., they are oxidized by Tollens' reagent and Fehling's solution. A monosaccharide like glucose is aldohexose and its molecular formula was found to be $C_6H_{12}O_6$. After reacting with different reagents like HI, $H_2N - OH$, Bromine water, $(CH_3CO)_2O$, etc. its structure was found to contain one aldehyde group, one primary alcoholic group, ($-CH_2OH$) and four secondary alcoholic groups ($>CHOH$). Despite having the aldehyde group, glucose does not give some of the reactions of aldehyde group like Schiff's test, $NaHSO_3$ addition. This explains the existence of glucose in two cyclic hemiacetal forms which differ only in the configuration of the hydroxyl group at C – 1.



निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) अपचायी शर्करा क्या होती हैं ?

(ख) निम्नलिखित को मोनोसैकैराइड और डाइसैकैराइड में वर्गीकृत कीजिए :

फ्रॉटोस, सूक्ष्मोस, लैक्टोस, गैलैक्टोस

(ग) उस पॉलिसैकैराइड का नाम बताइए जिसे 'प्राणी स्टार्च' कहा जाता है। इसे 'प्राणी स्टार्च' क्यों कहते हैं ?

अथवा

(ग) (i) ग्लूकोस के उन समावयवों के नाम बताइए जिनके चक्रीय रूप में C - 1 पर - OH समूह के विन्यास में ही भिन्नता होती है।

(ii) ग्लूकोस की Br_2 जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है ?

$2 \times 1 = 2$

30. संक्रमण धातुओं के उदासीन परमाणु अथवा आयन में d-कक्षक अपूर्ण होते हैं। इनके परमाणुओं में आंशिक भरित d-कक्षकों की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। आंशिक रूप से भरित d-कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिंग-न्डों के साथ संकुल निर्माण आदि। संक्रमण धातुएँ तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकी गुण व अनुचुम्बकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। संक्रमण धातुएँ अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होती हैं। इनके $E_{\text{M}^{2+}/\text{M}}^{\text{o}}$ के मानों की जाँच परिवर्ती प्रवृत्ति दर्शाती है :



Answer the following questions :

- (a) What are reducing sugars ? 1
- (b) Classify the following into monosaccharide and disaccharide :
Fructose, Sucrose, Lactose, Galactose 1
- (c) Name the polysaccharide which is known as 'animal starch'. Why is it called 'animal starch' ? 2

OR

- (c) (i) Name the isomers of glucose which in the cyclic form differ only in the configuration of the – OH group at C – 1.
- (ii) Presence of which functional group was detected when glucose reacted with Br_2 water ? $2 \times 1 = 2$
30. Transition metals have incomplete d-subshell either in neutral atom or in their ions. The presence of partly filled d-orbitals in their atoms makes transition elements different from that of the non-transition elements. With partly filled d-orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of oxidation states, formation of coloured ions and entering into complex formation with a variety of ligands. The transition metals and their compounds also exhibit catalytic properties and paramagnetic behaviour. The transition metals are very hard and have low volatility. An examination of the $E_{\text{M}^{2+}/\text{M}}^{\circ}$ values shows the varying trends :

$E^{\circ}_{M^{2+}/M}$	
V	- 1.18
Cr	- 0.91
Mn	- 1.18
Fe	- 0.44
Co	- 0.28
Ni	- 0.25
Cu	+ 0.34
Zn	- 0.76

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :


- (क) किस आधार पर हम कह सकते हैं कि Cu एक संक्रमण तत्व है लेकिन Zn नहीं ?
(परमाणु क्रमांक : Cu = 29, Zn = 30)
- (ख) संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विविधता क्यों दर्शाते हैं ?
- (ग) (i) वैनेडियम से ज़िंक तक $E^{\circ}_{M^{2+}/M}$ के मान अनियमित प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं ?
(ii) संक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनीयता असंक्रमण तत्वों की परिवर्तनीयता से किस प्रकार भिन्न होती है ?

2×1=2

अथवा

- (ग) (i) Cr^{2+} प्रबल अपचायक है जबकि Mn^{3+} प्रबल ऑक्सीकारक, जबकि दोनों ही d^4 स्पीशीज़ हैं, क्यों ?
(परमाणु क्रमांक : Cr = 24, Mn = 25)
- (ii) निम्न आयनिक समीकरण पूर्ण कीजिए :

2×1=2






$E_m^{o_{2+}/M}$	
V	- 1.18
Cr	- 0.91
Mn	- 1.18
Fe	- 0.44
Co	- 0.28
Ni	- 0.25
Cu	+ 0.34
Zn	- 0.76

Answer the following questions :

- (a) On what basis can we say that Cu is a transition element but Zn is not ? (Atomic number : Cu = 29, Zn = 30) 1
- (b) Why do transition elements show variety of oxidation states ? 1
- (c) (i) Why do $E_m^{o_{2+}/M}$ values show irregular trend from Vanadium to Zinc ?
- (ii) How is the variability in oxidation states of transition metals different from that of the non-transition elements ? $2 \times 1 = 2$

OR

- (c) (i) Of the d⁴ species, Cr²⁺ is strongly reducing while Mn³⁺ is strongly oxidizing. Why ? (Atomic number : Cr = 24, Mn = 25) $2 \times 1 = 2$
- (ii) Complete the following ionic equation :





खण्ड ड

31. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिए :

$5 \times 1 =$

- (क) अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा (Δ_0) किस प्रकार चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा (Δ_t) से संबंधित है ?
- (ख) निम्नलिखित संकुल का IUPAC नाम लिखिए :
 $[PtCl_2(en)_2](NO_3)_2$
- (ग) संयोजकता आबंध सिद्धांत (VBT) के आधार पर संकुल $[Ni(CO)_4]$ की ज्यामिति और चुंबकीय व्यवहार लिखिए।
- (घ) संकुल $[Co(NH_3)_6]$ $[Cr(CN)_6]$ के द्वारा किस प्रकार की समावयवता दर्शाई जाती है ?
- (ङ) क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर किसी उपसहसंयोजन यौगिक में d^4 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए यदि $\Delta_0 < P$ हो। क्या यह उपसहसंयोजन यौगिक उच्च प्रचक्रण अथवा निम्न प्रचक्रण संकुल है ?
- (च) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ और $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ में से कौन हेट्रोलेप्टिक संकुल है और क्यों ?
- (छ) $[PtCl_2(en)_2]^{2+}$ के प्रकाशिक समावयवों की संरचनाएँ बनाइए।

32. (क) (i) निम्नलिखित के कारण दीजिए :

- (1) कीटोनों की तुलना में ऐल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण आसान होता है।
- (2) ऐल्डिहाइडों के ऐल्फा (α) हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति अम्लीय होती है।



SECTION E

31. Answer any *five* of the following :

$5 \times 1 = 5$



- (a) How is the crystal field splitting energy for octahedral complex (Δ_o) related to that of tetrahedral complex (Δ_t) ?
- (b) Write the IUPAC name of the following complex :
 $[PtCl_2(en)_2](NO_3)_2$
- (c) Write the geometry and magnetic behaviour of the complex $[Ni(CO)_4]$ on the basis of Valency Bond Theory (VBT).
- (d) What type of isomerism is shown by the complex $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$?
- (e) For the coordination compound on the basis of crystal field theory, write the electronic configuration for d^4 ion if $\Delta_o < P$. Is the coordination compound a high spin or low spin complex ?
- (f) Out of $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ and $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$, which complex is heteroleptic and why ?
- (g) Draw the structures of optical isomers of $[PtCl_2(en)_2]^{2+}$.

32. (a) (i) Account for the following :

- (1) Oxidation of aldehydes is easier as compared to ketones.
- (2) The alpha (α) hydrogen atoms of aldehydes are acidic in nature.

प्र०

(ii) निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए :




(iii) एथेनॉइक अम्ल और ऐथेनैल में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए।

$2+2+1=5$

अथवा



- (ख) (i) बेन्जैल्डहाइड के 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजोन की संरचना बनाइए।
- (ii) निम्नलिखित को उनकी HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
- $$\text{CH}_3\text{COCH}_3, (\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{COCH}_3, \text{CH}_3\text{CHO}$$
- (iii) आप फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का बेन्जोइक अम्ल में किस प्रकार रूपान्तरण करेंगे?
- (iv) बेन्जैल्डहाइड और ऐथेनैल में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए।
- (v) निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद लिखिए :



$5 \times 1 = 5$



(ii) Write the products in the following reactions :




(iii) Give a simple chemical test to distinguish between ethanoic acid and ethanal.

$2+2+1=5$

OR

(b) (i) Draw structure of the 2,4-dinitrophenylhydrazone of benzaldehyde.


(ii) Arrange the following in increasing order of their reactivity towards HCN :



(iii) How can you convert phenyl magnesium bromide to benzoic acid ?

(iv) Give a simple chemical test to distinguish between benzaldehyde and ethanal.

(v) Write the main product in the following reaction :



$5 \times 1 = 5$



33. (क) (i) $0.05 \text{ M } \text{CH}_3\text{COOH}$ विलयन का प्रतिरोध $100 \text{ }\Omega$ में पाया गया। यदि सेल स्थिरांक 0.0354 cm^{-1} है, तो ऐसीटिक अम्ल विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए।
- (ii) फैराडे के विद्युत-अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। $1 \text{ मोल } \text{MnO}_4^-$ को Mn^{2+} में अपचयन के लिए फैराडे में कितने आवेश की आवश्यकता होगी?

$3+2=5$

अथवा

- (ख) (i) $0.0025 \text{ mol L}^{-1}$ ऐसीटिक अम्ल की चालकता $5.25 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ है। यदि ऐसीटिक अम्ल के लिए Λ_m^0 का मान $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है, तो इसकी वियोजन मात्रा का परिकलन कीजिए।
- (ii) लेड संचायक बैटरी के ऐनोड, कैथोड और समग्र अभिक्रिया लिखिए।

$3+2=5$

33. (a) (i) The resistance of 0.05 M CH_3COOH solution is found to be 100 ohm. If the cell constant is 0.0354 cm^{-1} , calculate the molar conductivity of the acetic acid solution.
- (ii) State Faraday's first law of electrolysis. How much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mol of MnO_4^- to Mn^{2+} ? $3+2=5$

OR

- (b) (i) The conductivity of $0.0025 \text{ mol L}^{-1}$ acetic acid is $5.25 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. Calculate its degree of dissociation if Λ_m^o for acetic acid is $390 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.
- (ii) Write anode, cathode and overall reaction of lead storage battery. $3+2=5$

